

२०१०-११

शास्त्री परीक्षा

खण्ड- प्रथम, अधिसत्र- द्वितीय

विषय- पालि पत्र- सप्तम

समय: ३½ घण्टा

सम्पूर्णाङ्क- ५०

निर्देश: एक पंक्ति में १० शब्द तथा एक पृष्ठ में कम से कम ८ पंक्तियों में उत्तर लिखना अपेक्षित है।

१- 'महापरिनिब्बानसुत्त' के आधार पर 'शील के गुणों' का वर्णन करें। 8

अथवा

'सुभद्र परिव्राजक' की प्रब्रज्या ५०० शब्दों में लिखिए।

२- भगवान् तथागत के शरीर के 'स्तूप निर्माण' की कथा संक्षेप में लिखिए। 7

अथवा

पाट्यग्रन्थ के आधार पर 'सात अपरिहाणीय धर्मों' का वर्णन कीजिए।

३- निम्नलिखित गद्य की २५० शब्दों में सप्रसङ्ग व्याख्या लिखें। 5

“तमिदं भिक्खवे । दुक्खं अरियसच्चं अनुबुद्धं पटिविद्धं ।

दुक्खसमुदयं अरियसच्चं अनुबुद्धं पटिविद्धं । दुक्खनिरोधं

अरियसच्चं अनुबुद्धं पटिविद्धं । दुक्खनिरोधं गामिनी

पटिपदा अरियसच्चं अनुबुद्धं पटिविद्धं । उच्छिन्ना भवतण्हा,

खीणा भवनेत्ति । नत्थि दानि पुनब्भवो” ति ।

अथवा

गाथा की व्याख्या लिखें।

“ये तरन्ति अण्णवं सरं ,सेतुं कत्वान पल्ललानि ।

कुल्लं हि जनो पबन्धति, तिण्णा मेधाविनो जना’ ति ।।”

कृ०प०उ०...२

(२)

- ४- किन्हीं दो पर २०० शब्दों में टिप्पणी लिखिए- 10
- क- धम्मदासो
ख- अम्बपाली
ग- बोधिपाक्षिक धर्म
घ- बोध्यङ्ग
- ५- किन्हीं एक पर ५०० शब्दों में निबन्ध लिखिए- 10
- क- मज्झिमा पटिपदा।
ख- निब्बाणं।
ग- अनित्यवाद।
- ६- किन्हीं पाँच वाक्यों का पालि में अनुवाद कीजिए- 10
- क- विद्यार्थी गुरु की सेवा करते हैं।
ख- महास्थविर भिक्षुओं को उपदेश देते हैं।
ग- सभी संस्कार अनित्य हैं।
घ- उपासक भिक्षुओं को दान देता है।
ङ- वृक्ष से पत्ते गिरते हैं।
च- मैं बुद्ध की शरण जाऊँगा।
छ- मैं एक बार "बोधगया" गया था।
ज- तीर्थस्थलों का भ्रमण करना चाहिए।
झ- बालक सर्प से डरता है।
ञ- बुद्ध की पूजा से महत्पुण्य की प्राप्ति होती है।

०००००००